



Rahul kumar

01 Jul 1987

08:25 AM

Sasaram

Model: Web-MyKundli

Order No: 121549201

## सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

लिंग \_\_\_\_\_: पुल्लिंग  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_: 01/07/1987  
दिन \_\_\_\_\_: बुधवार  
जन्म समय \_\_\_\_\_: 08:25:00 घंटे  
इष्ट \_\_\_\_\_: 08:13:11 घटी  
स्थान \_\_\_\_\_: Sasaram  
राज्य \_\_\_\_\_: Bihar  
देश \_\_\_\_\_: India

अक्षांश \_\_\_\_\_: 24:58:00 उत्तर  
रेखांश \_\_\_\_\_: 84:01:00 पूर्व  
मध्य रेखांश \_\_\_\_\_: 82:30:00 पूर्व  
स्थानिक संस्कार \_\_\_\_\_: 00:06:04 घंटे  
ग्रीष्म संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:00 घंटे  
स्थानिक समय \_\_\_\_\_: 08:31:04 घंटे  
वेलान्तर \_\_\_\_\_: -00:03:39 घंटे  
साम्पातिक काल \_\_\_\_\_: 03:05:37 घंटे  
सूर्योदय \_\_\_\_\_: 05:07:43 घंटे  
सूर्यास्त \_\_\_\_\_: 18:47:25 घंटे  
दिनमान \_\_\_\_\_: 13:39:42 घंटे  
सूर्य स्थिति(अयन) \_\_\_\_\_: दक्षिणायन  
सूर्य स्थिति(गोल) \_\_\_\_\_: उत्तर  
ऋतु \_\_\_\_\_: वर्षा  
सूर्य के अंश \_\_\_\_\_: 15:05:34 मिथुन  
लग्न के अंश \_\_\_\_\_: 27:15:18 कर्क

#### अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति \_\_\_\_\_: कर्क - चन्द्र  
राशि-स्वामी \_\_\_\_\_: सिंह - सूर्य  
नक्षत्र-चरण \_\_\_\_\_: मघा - 3  
नक्षत्र स्वामी \_\_\_\_\_: केतु  
योग \_\_\_\_\_: सिद्धि  
करण \_\_\_\_\_: बव  
गण \_\_\_\_\_: राक्षस  
योनि \_\_\_\_\_: मूषक  
नाड़ी \_\_\_\_\_: अन्त्य  
वर्ण \_\_\_\_\_: क्षत्रिय  
वश्य \_\_\_\_\_: वनचर  
वर्ग \_\_\_\_\_: मूषक  
युँजा \_\_\_\_\_: मध्य  
हंसक \_\_\_\_\_: अग्नि  
जन्म नामाक्षर \_\_\_\_\_: मू-मुकेश  
पाया(राशि-नक्षत्र) \_\_\_\_\_: रजत - रजत  
सूर्य राशि(पाश्चात्य) \_\_\_\_\_: कर्क

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

## पंचांग

दादा का नाम \_\_\_\_\_ :  
पिता का नाम \_\_\_\_\_ :  
माता का नाम \_\_\_\_\_ :  
जाति \_\_\_\_\_ :  
गोत्र \_\_\_\_\_ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1909	आषाढ़	10
पंजाबी	संवत : 2044	आषाढ़	17
बंगाली	सन् : 1394	आषाढ़	16
तमिल	संवत : 2044	आनी	17
केरल	कोल्लम : 1162	मिथुनम	17
नेपाली	संवत : 2044	आषाढ़	17
चैत्रादि	संवत : 2044	आषाढ़	शुक्ल 5
कार्तिकादि	संवत : 2044	आषाढ़	शुक्ल 5

### पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि \_\_\_\_\_ : 5  
तिथि समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 22:47:23  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_ : 5  
सूर्योदय कालीन नक्षत्र \_\_\_\_\_ : मघा  
नक्षत्र समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 18:08:11 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : मघा  
सूर्योदय कालीन योग \_\_\_\_\_ : सिद्धि  
योग समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 26:29:35 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : सिद्धि  
सूर्योदय कालीन करण \_\_\_\_\_ : बव  
करण समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 09:44:50 घंटे  
जन्म करण \_\_\_\_\_ : बव  
भयात \_\_\_\_\_ : 42:42:43  
भभोग \_\_\_\_\_ : 67:00:38  
भोग्य दशा काल \_\_\_\_\_ : केतु 2 वर्ष 6 मा 17 दि

### घात चक्र

मास \_\_\_\_\_ : ज्येष्ठ  
तिथि \_\_\_\_\_ : 3-8-13  
दिन \_\_\_\_\_ : शनिवार  
नक्षत्र \_\_\_\_\_ : मूल  
योग \_\_\_\_\_ : धृति  
करण \_\_\_\_\_ : बव  
प्रहर \_\_\_\_\_ : 1  
वर्ग \_\_\_\_\_ : मार्जार  
लग्न \_\_\_\_\_ : मीन  
सूर्य \_\_\_\_\_ : धनु  
चन्द्र \_\_\_\_\_ : मकर  
मंगल \_\_\_\_\_ : मकर  
बुध \_\_\_\_\_ : तुला  
गुरु \_\_\_\_\_ : कुम्भ  
शुक्र \_\_\_\_\_ : मीन  
शनि \_\_\_\_\_ : वृश्चिक  
राहु \_\_\_\_\_ : मेष

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र


लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382


9835195382

# जन्म कुण्डली

## लग्न कुण्डली



## चन्द्र कुण्डली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

# लग्न कुण्डली और दशा

## लग्न कुण्डली

रा	गु	शु सू बु
		मं ल
		चं
श		के

## लग्न कुण्डली

शु बु	गु	रा
सू		
मं ल		
चं	के	श

विंशोत्तरी  
केतु 2वर्ष 6मा 17दि  
केतु

01/07/1987

17/01/2103

केतु	16/01/1990
शुक्र	16/01/2010
सूर्य	16/01/2016
चन्द्र	16/01/2026
मंगल	16/01/2033
राहु	16/01/2051
गुरु	16/01/2067
शनि	16/01/2086
बुध	17/01/2103

योगिनी

भद्रिका 1वर्ष 9मा 25दि

उल्का

25/04/2025

26/04/2031

उल्का	25/04/2026
सिद्धा	26/06/2027
संकटा	25/10/2028
मंगला	24/12/2028
पिंगला	25/04/2029
धान्या	25/10/2029
भ्रामरी	25/06/2030
भद्रिका	26/04/2031

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382


## ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			कर्क	27:15:18	317:04:34	आश्लेषा	4	9	चंद्र	बुध	गुरु	---
सूर्य			मिथु	15:05:34	00:57:13	आर्द्रा	3	6	बुध	राहु	केतु	सम राशि
चंद्र			सिंह	08:28:58	11:57:07	मघा	3	10	सूर्य	केतु	गुरु	मित्र राशि
मंगल			कर्क	02:45:10	00:38:23	पुनर्वसु	4	7	चंद्र	गुरु	राहु	नीच राशि
बुध	व	अ	मिथु	19:49:59	00:34:43	आर्द्रा	4	6	बुध	राहु	मंगल	स्वराशि
गुरु			मेष	02:16:12	00:08:32	अश्विनी	1	1	मंगल	केतु	शुक्र	मित्र राशि
शुक्र			मिथु	00:34:12	01:13:16	मृगशिरा	3	5	बुध	मंगल	बुध	मित्र राशि
शनि	व		वृश्चि	22:37:49	00:03:55	ज्येष्ठा	2	18	मंगल	बुध	चंद्र	शत्रु राशि
राहु	व		मीन	12:44:37	00:04:40	उ०भाद्रपद	3	26	गुरु	शनि	मंगल	सम राशि
केतु	व		कन्या	12:44:37	00:04:40	हस्त	1	13	बुध	चंद्र	राहु	शत्रु राशि
हर्ष	व		धनु	00:27:34	00:02:21	मूल	1	19	गुरु	केतु	केतु	---
नेप	व		धनु	12:52:50	00:01:37	मूल	4	19	गुरु	केतु	बुध	---
प्लूटो	व		तुला	13:32:53	00:00:34	स्वाति	3	15	शुक्र	राहु	बुध	---
दशम भाव			मेष	25:10:38	--	भरणी	--	2	मंगल	शुक्र	बुध	--


व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:40:55


### लग्न-चलित



### चन्द्र कुंडली



### नवमांश कुंडली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

## चलित तथा निरयण भाव चलित

### चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	कर्क 11:54:31	कर्क 27:15:18
2	सिंह 11:54:31	सिंह 26:33:45
3	कन्या 11:12:58	कन्या 25:52:11
4	तुला 10:31:25	तुला 25:10:38
5	वृश्चिक 10:31:25	वृश्चिक 25:52:11
6	धनु 11:12:58	धनु 26:33:45
7	मकर 11:54:31	मकर 27:15:18
8	कुम्भ 11:54:31	कुम्भ 26:33:45
9	मीन 11:12:58	मीन 25:52:11
10	मेष 10:31:25	मेष 25:10:38
11	वृष 10:31:25	वृष 25:52:11
12	मिथुन 11:12:58	मिथुन 26:33:45


### निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	कर्क	27:15:18
2	सिंह	23:16:48
3	कन्या	23:00:25
4	तुला	25:10:38
5	वृश्चिक	27:20:19
6	धनु	28:04:49
7	मकर	27:15:18
8	कुम्भ	23:16:48
9	मीन	23:00:25
10	मेष	25:10:38
11	वृष	27:20:19
12	मिथुन	28:04:49


### तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती
अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा

### चलित कुंडली



### भाव कुंडली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

## विंशोत्तरी दशा

### भोग्य दशा काल : केतु 2 वर्ष 6 मास 17 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
01/07/1987	16/01/1990	16/01/2010	16/01/2016	16/01/2026
16/01/1990	16/01/2010	16/01/2016	16/01/2026	16/01/2033
00/00/0000	शुक्र 17/05/1993	सूर्य 06/05/2010	चंद्र 16/11/2016	मंगल 14/06/2026
00/00/0000	सूर्य 18/05/1994	चंद्र 04/11/2010	मंगल 17/06/2017	राहु 03/07/2027
00/00/0000	चंद्र 16/01/1996	मंगल 12/03/2011	राहु 17/12/2018	गुरु 08/06/2028
00/00/0000	मंगल 18/03/1997	राहु 04/02/2012	गुरु 17/04/2020	शनि 17/07/2029
00/00/0000	राहु 17/03/2000	गुरु 22/11/2012	शनि 16/11/2021	बुध 15/07/2030
01/07/1987	गुरु 16/11/2002	शनि 04/11/2013	बुध 18/04/2023	केतु 11/12/2030
गुरु 11/12/1987	शनि 16/01/2006	बुध 10/09/2014	केतु 17/11/2023	शुक्र 10/02/2032
शनि 19/01/1989	बुध 16/11/2008	केतु 16/01/2015	शुक्र 17/07/2025	सूर्य 17/06/2032
बुध 16/01/1990	केतु 16/01/2010	शुक्र 16/01/2016	सूर्य 16/01/2026	चंद्र 16/01/2033

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
16/01/2033	16/01/2051	16/01/2067	16/01/2086	17/01/2103
16/01/2051	16/01/2067	16/01/2086	17/01/2103	00/00/0000
राहु 29/09/2035	गुरु 05/03/2053	शनि 19/01/2070	बुध 14/06/2088	केतु 15/06/2103
गुरु 22/02/2038	शनि 17/09/2055	बुध 28/09/2072	केतु 11/06/2089	शुक्र 15/08/2104
शनि 28/12/2040	बुध 23/12/2057	केतु 07/11/2073	शुक्र 11/04/2092	सूर्य 20/12/2104
बुध 18/07/2043	केतु 29/11/2058	शुक्र 07/01/2077	सूर्य 15/02/2093	चंद्र 21/07/2105
केतु 04/08/2044	शुक्र 30/07/2061	सूर्य 20/12/2077	चंद्र 18/07/2094	मंगल 18/12/2105
शुक्र 05/08/2047	सूर्य 18/05/2062	चंद्र 21/07/2079	मंगल 15/07/2095	राहु 05/01/2107
सूर्य 29/06/2048	चंद्र 17/09/2063	मंगल 29/08/2080	राहु 31/01/2098	गुरु 02/07/2107
चंद्र 29/12/2049	मंगल 23/08/2064	राहु 06/07/2083	गुरु 09/05/2100	00/00/0000
मंगल 16/01/2051	राहु 16/01/2067	गुरु 16/01/2086	शनि 17/01/2103	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 2 वर्ष 6 मा 14 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

<b>मंगल - मंगल</b> <b>16/01/2026</b> <b>14/06/2026</b>	<b>मंगल - राहु</b> <b>14/06/2026</b> <b>03/07/2027</b>	<b>मंगल - गुरु</b> <b>03/07/2027</b> <b>08/06/2028</b>	<b>मंगल - शनि</b> <b>08/06/2028</b> <b>17/07/2029</b>	<b>मंगल - बुध</b> <b>17/07/2029</b> <b>15/07/2030</b>
मंगल 25/01/2026 राहु 16/02/2026 गुरु 08/03/2026 शनि 01/04/2026 बुध 22/04/2026 केतु 30/04/2026 शुक्र 25/05/2026 सूर्य 02/06/2026 चंद्र 14/06/2026	राहु 11/08/2026 गुरु 01/10/2026 शनि 01/12/2026 बुध 24/01/2027 केतु 15/02/2027 शुक्र 20/04/2027 सूर्य 09/05/2027 चंद्र 10/06/2027 मंगल 03/07/2027	गुरु 17/08/2027 शनि 10/10/2027 बुध 27/11/2027 केतु 17/12/2027 शुक्र 12/02/2028 सूर्य 29/02/2028 चंद्र 29/03/2028 मंगल 17/04/2028 राहु 08/06/2028	शनि 11/08/2028 बुध 07/10/2028 केतु 31/10/2028 शुक्र 06/01/2029 सूर्य 26/01/2029 चंद्र 01/03/2029 मंगल 25/03/2029 राहु 24/05/2029 गुरु 17/07/2029	बुध 07/09/2029 केतु 28/09/2029 शुक्र 27/11/2029 सूर्य 15/12/2029 चंद्र 14/01/2030 मंगल 05/02/2030 राहु 31/03/2030 गुरु 18/05/2030 शनि 15/07/2030
<b>मंगल - केतु</b> <b>15/07/2030</b> <b>11/12/2030</b>	<b>मंगल - शुक्र</b> <b>11/12/2030</b> <b>10/02/2032</b>	<b>मंगल - सूर्य</b> <b>10/02/2032</b> <b>17/06/2032</b>	<b>मंगल - चंद्र</b> <b>17/06/2032</b> <b>16/01/2033</b>	<b>राहु - राहु</b> <b>16/01/2033</b> <b>29/09/2035</b>
केतु 23/07/2030 शुक्र 17/08/2030 सूर्य 25/08/2030 चंद्र 06/09/2030 मंगल 15/09/2030 राहु 07/10/2030 गुरु 27/10/2030 शनि 20/11/2030 बुध 11/12/2030	शुक्र 20/02/2031 सूर्य 13/03/2031 चंद्र 18/04/2031 मंगल 12/05/2031 राहु 15/07/2031 गुरु 10/09/2031 शनि 17/11/2031 बुध 16/01/2032 केतु 10/02/2032	सूर्य 16/02/2032 चंद्र 27/02/2032 मंगल 05/03/2032 राहु 25/03/2032 गुरु 11/04/2032 शनि 01/05/2032 बुध 19/05/2032 केतु 26/05/2032 शुक्र 17/06/2032	चंद्र 04/07/2032 मंगल 17/07/2032 राहु 18/08/2032 गुरु 15/09/2032 शनि 19/10/2032 बुध 18/11/2032 केतु 01/12/2032 शुक्र 05/01/2033 सूर्य 16/01/2033	राहु 13/06/2033 गुरु 22/10/2033 शनि 27/03/2034 बुध 14/08/2034 केतु 11/10/2034 शुक्र 24/03/2035 सूर्य 12/05/2035 चंद्र 02/08/2035 मंगल 29/09/2035
<b>राहु - गुरु</b> <b>29/09/2035</b> <b>22/02/2038</b>	<b>राहु - शनि</b> <b>22/02/2038</b> <b>28/12/2040</b>	<b>राहु - बुध</b> <b>28/12/2040</b> <b>18/07/2043</b>	<b>राहु - केतु</b> <b>18/07/2043</b> <b>04/08/2044</b>	<b>राहु - शुक्र</b> <b>04/08/2044</b> <b>05/08/2047</b>
गुरु 24/01/2036 शनि 11/06/2036 बुध 13/10/2036 केतु 03/12/2036 शुक्र 28/04/2037 सूर्य 11/06/2037 चंद्र 23/08/2037 मंगल 13/10/2037 राहु 22/02/2038	शनि 05/08/2038 बुध 31/12/2038 केतु 02/03/2039 शुक्र 22/08/2039 सूर्य 13/10/2039 चंद्र 08/01/2040 मंगल 09/03/2040 राहु 12/08/2040 गुरु 28/12/2040	बुध 09/05/2041 केतु 03/07/2041 शुक्र 05/12/2041 सूर्य 21/01/2042 चंद्र 08/04/2042 मंगल 01/06/2042 राहु 19/10/2042 गुरु 20/02/2043 शनि 18/07/2043	केतु 09/08/2043 शुक्र 12/10/2043 सूर्य 31/10/2043 चंद्र 02/12/2043 मंगल 25/12/2043 राहु 20/02/2044 गुरु 11/04/2044 शनि 11/06/2044 बुध 04/08/2044	शुक्र 03/02/2045 सूर्य 30/03/2045 चंद्र 29/06/2045 मंगल 01/09/2045 राहु 12/02/2046 गुरु 08/07/2046 शनि 29/12/2046 बुध 02/06/2047 केतु 05/08/2047

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	1
भाग्यांक	6
मित्र अंक	1, 4, 8, 9, 6
शत्रु अंक	3, 5,
शुभ वर्ष	19,28,37,46,55
शुभ दिन	मंगल, सोम, गुरु
शुभ ग्रह	मंगल, चन्द्र, गुरु
मित्र राशि	वृश्चिक, मेष
मित्र लग्न	तुला, मीन, वृष
अनुकूल देवता	सूर्य
शुभ रत्न	मोती
शुभ उपरत्न	चन्द्रमणि
भाग्य रत्न	पुखराज
शुभ धातु	रजत
शुभ रंग	श्वेत
शुभ दिशा	पश्चिमोत्तर
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	शंख, कपूर, श्वेतचन्दन
दान अन्न	चावल
दान द्रव्य	दही

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382


9835195382

## रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
मूंगा	मंगल	98%	स्वास्थ्य, व्यावसायिक उन्नति, सन्तति सुख
मोती	चंद्र	89%	धन, स्वास्थ्य
पुखराज	गुरु	77%	व्यावसायिक उन्नति, शत्रु व रोग मुक्ति, भाग्योदय
गोमेद	राहु	75%	भाग्योदय, व्यावसायिक उन्नति
हीरा	शुक्र	38%	व्यय, हानि, ग्रह क्लेश
माणिक्य	सूर्य	34%	व्यय, धन हानि
लहसुनिया	केतु	25%	पराक्रम हानि, व्यय
नीलम	शनि	9%	सन्तति कष्ट, दाम्पत्य कष्ट, दुर्घटना
पन्ना	बुध	0%	व्यय, पराक्रम हानि



### दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	16/01/1990	9%	77%	100%	0%	77%	50%	0%	62%	50%
शुक्र	16/01/2010	9%	77%	98%	0%	77%	56%	22%	81%	38%
सूर्य	16/01/2016	55%	95%	100%	0%	83%	12%	0%	62%	0%
चंद्र	16/01/2026	47%	100%	98%	0%	77%	38%	9%	62%	0%
मंगल	16/01/2033	47%	95%	100%	0%	83%	38%	9%	62%	38%
राहु	16/01/2051	9%	77%	86%	0%	77%	50%	22%	88%	0%
गुरु	16/01/2067	47%	95%	100%	0%	89%	12%	9%	75%	25%
शनि	16/01/2086	9%	77%	86%	0%	77%	50%	34%	81%	0%
बुध	17/01/2103	47%	77%	98%	6%	77%	50%	9%	75%	25%

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

## साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

### प्रथम चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	01/07/1987-17/12/1987	-----	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	02/06/1995-10/08/1995	16/02/1996-17/04/1998	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	06/09/2004-13/01/2005	26/05/2005-01/11/2006	10/01/2007-16/07/2007
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	01/11/2006-10/01/2007	16/07/2007-10/09/2009	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	10/09/2009-15/11/2011	16/05/2012-04/08/2012	-----

### द्वितीय चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/11/2014-26/01/2017	21/06/2017-26/10/2017	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	29/03/2025-03/06/2027	20/10/2027-23/02/2028	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	27/08/2036-22/10/2038	05/04/2039-13/07/2039	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	22/10/2038-05/04/2039	13/07/2039-28/01/2041	06/02/2041-26/09/2041

### तृतीय चक्र:

चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	11/12/2043-23/06/2044	30/08/2044-08/12/2046	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	14/05/2054-02/09/2054	05/02/2055-07/04/2057	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	24/08/2063-06/02/2064	09/05/2064-13/10/2065	03/02/2066-03/07/2066
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	13/10/2065-03/02/2066	03/07/2066-30/08/2068	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	30/08/2068-04/11/2070	-----	-----

### शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	सम	सन्तति कष्ट
अष्टम स्थानस्थ ढैया	शुभ	भाग्योदय
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	अशुभ	बुरा स्वास्थ्य
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	अशुभ	धन
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	शुभ	पराक्रम

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

## साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

**ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।**

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।  
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

**ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।**

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

**ॐ शं शनैश्चराय नमः ।**

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

## मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।  
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

\*\*\*\*\*

आपकी जन्म कुंडली में मंगल लग्न में स्थित है। अतः आप एक मांगलिक पुरुष है इस मंगल के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा पित या गर्मी से किंचित परेशानी हो सकती है लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप स्वभाव से तेजस्वी रहेंगे तथा स्वपराक्रम के द्वारा अपने सांसारिक महत्व के कार्यों को सम्पन्न करेंगे। इस मंगल के प्रभाव से आपके विवाह में न्यूनाधिक मात्रा में विलम्ब होगा तथा विवाह संबंधी कोई वार्ता भी असफल हो सकती है लेकिन विवाह अवश्य होगा तथा विवाहोपरान्त आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी सामान्यतया अनुकूल ही रहेगा तथा सुखी दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आपकी कुंडली के प्रथम भाव में स्थित मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से जीवन में आपको आवश्यक सुख संसाधनों की प्राप्ति में किंचित परिश्रम करना पड़ेगा साथ ही जमीन जायदाद तथा वाहन आदि से भी आप युक्त रहेंगे। सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से जीवन साथी का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं परस्पर मधुरता के संबंध बने रहेंगे। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण सांसारिक कार्यों में यदा कदा व्यवधान उत्पन्न होंगे परन्तु उनका सामना तथा समाधान करने में आप समर्थ रहेंगे। उर्पयुक्त योग के प्रभाव से यदा कदा पित जनित कष्ट की भी संभावना रहेगी लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

अतः मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने तथा शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आपको किसी मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए जिससे मांगलिक दोष परस्पर भंग हो सके। इसके लिए कन्या की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि राहु या अन्य पाप ग्रह की स्थिति होनी चाहिए। यदि इस प्रकार मांगलिक दोष भंग होने के पश्चात् आप विवाह करेंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

जीवन में समस्त सुखोपभोग की सामग्री को अर्जित करने में आप समर्थ रहेंगे। साथ ही धन ऐश्वर्य से युक्त होकर आप सुख पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे।



**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

## कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।  
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलार्द्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलार्द्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

### काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

### जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में शंखचूड़ नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्णरूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। फलस्वरूप जातक को भाग्योदय होने में थोड़ा व्यवधान उपस्थित होता है और नौकरी में आगे बढ़ने के प्रयास में आंशिक रूप से रुकावटें आती हैं। परन्तु कालान्तर में व्यवधान स्वतः हट जाता है और कभी नौकरी में अवनति का भय होता है। व्यापार में थोड़ी बहुत रुकावट आकर नुकसान को जातक प्राप्त करता है। मित्रों द्वारा कपट व्यवहार होने के कारण जातक को धन की क्षति उठानी पड़ती है। पिता के सुख में न्यूनता रहती है। मामा पक्ष से या बहनोई से छल कपट किये जाने पर जातक आंशिक कष्ट पाता है और शासन की तरफ से भी थोड़ा बहुत मुसीबत आती है। अधिकारियों से कभी-कभी मनमुटाव हो जाता है। जिस कारण जातक को न्यायालय से कभी जुर्माना या आंशिक रूप में सजा मिल सकती है।

इस योग के प्रभाव से जातक के शरीर में कभी-कभी रोग व्याधि ग्रसित कर लेती है। जिसमें थोड़ा बहुत धन खर्च हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति असामान्य हो जाती है। कालान्तर में पुनः वह सामान्य हो जाती है। जातक को चिन्ता परेशानी समय-समय पर लग जाती है और वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए भी कभी दुःखमय बन जाता है तथा प्रायः भोग से अतृप्त रहती है। घर में सुख शान्ति का थोड़ा बहुत अभाव रहता है। जातक कई प्रकार से धन्ये करता है पर स्थाई सफलता सदैव संदिग्ध रहती है। सुख प्राप्ति के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ता है और सामाजिक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा सामान्य रहती है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।
5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।
8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।
10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।
12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन्, लोहे की अंगूठी धारण करें।

#### विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

# पितृदोष विचार

## पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

## पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

### पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

### पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

**ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।**

**नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥**

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

### **पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :**

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृों का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

### **आपकी कुण्डली में पितृदोष**

- पंचम भाव में शनि स्थित है एवं राहु से दृष्ट है।
- पंचम भाव का स्वामी नीचस्थ है और उस पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में मंगल और शनि के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में मंगल पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा क्रोधवश किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आपको नौकर, छोटे भाईयों को दान देना चाहिए।

आपकी कुण्डली में शनि पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा दलित पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ भगवान रुद्र की पूजा करें। पीपल को जल चढ़ायें व पूजा करें। शम्मी की समिधा से हवन करें। बकरी व शनि प्रीतकारी वस्तुओं का दान करें। गरीब या जरूरतमंदों की सहायता के रूप में दान दें तथा कौए को खाने का पहला ग्रास खिलायें।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

**नोट :**

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

## ग्रह फल

### सूर्य

बारहवें भाव में सूर्य हो तो जातक वाम नेत्र तथा मस्तक रोगी ,आलसी, उदासीन, परदेशवासी, मित्र-द्वेषी एवं कृश शरीर होता है।

मिथुन राशि में रवि हो तो जातक धनवान्, ज्योतिषी, इतिहास प्रेमी उदार, विवेकी, विद्वान्, बुद्धिमान, मधुरभाषी, नम्र एवं प्रेमी होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य द्वादश भाव में स्थित है अतः आपके पिता का शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता भी रहेगी। आपके प्रति उनके मन में स्नेह का भाव रहेगा। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त ही रहेंगे एवं जीवन में शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको नित्य अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। दानशीलता की प्रवृत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं आपको भी पुण्य कार्यों को करने की नित्य प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे।

आप का भी उनके प्रति मन में पूर्ण आदर का भाव रहेगा एवं समयानुसार उनकी आज्ञा का आप अनुपालन करते रहेंगे। आपके आपसी संबंध अच्छे होंगे परन्तु बीच बीच में कभी सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में तनाव या कटुता आएगी लेकिन कुछ समय के उपरान्त स्वतः ही ठीक हो जाएगा। साथ ही आजीवन में हमेशा उनके सहयोग एवं सहायता के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे एवं उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होने देंगे तथा समयानुसार आर्थिक या अन्य प्रकार की वांछित सहयोग भी प्रदान करेंगे।

### चन्द्र

द्वितीयभाव में चन्द्रमा हो तो जातक परदेशवासी, भोगी, सुन्दर मधुरभाषी, भाग्यवान्, सहनशील एवं शान्तिप्रिय होता है।

सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो जातक दृढ़देही, दाँत तथा पेट का रोगी, मातृभक्त, अल्पसन्ततिवान्, गम्भीर, दानी, साहसी, शान दिखाने वाला अभिमानी, महत्वाकांक्षी एवं पुराने विचारों वाला होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं कोई विशेष शारीरिक रुग्णता नहीं रहेगी। वे आपको हमेशा धनार्जन एवं विद्याध्ययन संबंधी कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। साथ ही आपकी पारिवारिक उन्नति एवं पालन करने में भी उनकी मुख्य भूमिका रहेगी यदा कदा वे आपको नैतिक शिक्षा भी देंगी तथा आपके प्रति उनके हृदय में पूर्ण वात्सल्य का भाव रहेगा। इसके साथ ही जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि आप उनके सहयोग से ही करेंगे।

आप की भी माता के प्रति हादिक श्रद्धा रहेगी एवं उनकी आज्ञा पालन करने में आप गौरव की अनुभूति करेंगे। साथ ही जीवन में सर्वप्रकार से उनकी सेवा करना आप अपना कर्तव्य समझेंगे तथा समयानुसार उनको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते रहेंगे। अतः आपकी

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

परस्पर संबंध मधुर रहेंगे एवं जीवन में एक दूसरों की सहायता एवं सहयोग का आदान प्रदान करके सुखानुभूति करेंगे।

### मंगल

लग्न (प्रथम) में मंगल हो तो जातक, चपल, क्रूर, महत्वाकांक्षी, विचार रहित, गुप्तरोगी, उतावला, लौहधातु एवं व्रणजन्य, कष्ट से युक्त, व्यवसायहानि, दुर्घटना की सम्भावना, दुःखी, निर्धन एवं साहसी होता है।

कर्क राशि में मंगल हो तो जातक कुशाबुद्धिवाला, धनवान्, बदमाश, कुशलचिकित्सक, या सर्जन, चंचलमनवाला सुखाभिलाषी, कृषक, रोगी एवं दुष्ट होता है।

आपके जन्म काल में मंगल प्रथम भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता उनमें परिलक्षित होगी। धन धान्य से वे प्रायः सुसम्पन्न ही दौरान आपकी- प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह भाव रहेगा एवं जीवन में आपको प्रायः अपना आधिक या अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

आप भी उनको हृदय से चाहेंगे तथा उनकी वांछित सहायता एवं सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर ही होंगे परन्तु यदा कदा मतभेद के कारण संबंधों में कटुता या तनाव भी उत्पन्न होगा लेकिन यह अल्प समय के लिए ही रहेगा उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस प्रकार मध्यम रूप से आप एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते रहेंगे।

### बुध

बारहवें भाव में बुध हो तो जातक अल्पभाषी, विद्वान्, आलसी धर्मात्मा, वकील, सुन्दर, वेदान्ती, लेखक, दानी एवं शास्त्रज्ञ होता है।

मिथुन राशि में बुध हो तो जातक मधुरभाषी, शास्त्रज्ञ, लब्धप्रतिष्ठ, वक्ता, लेखक, अल्पसन्ततिवाला, विवेकी, सदाचारी, खोज के काम में चतुर, दीर्घायु, यात्रा का शौकीन, संगीत में रुचि एवं हास परिहास करने वाला होता है।

### गुरु

दशमभाव में गुरु हो तो जातक सुकर्म करने वाला, प्रसिद्ध और सम्मानित प्रतिष्ठित पद पर आसीन, सदाचारी, पुण्यात्मा, ऐश्वर्यवान्, साधु, चतुर, न्यायी, प्रसन्न, ज्योतिषी, सत्यवादी, शत्रुहन्ता, राजमान्य, स्वतन्त्र विचारक, मातृपितृ भक्त, लाभवान्, धनी एवं भाग्यवान् होता है।

मेष राशि में गुरु हो तो जातक ऐश्वर्यशाली, तेजस्वी, वकील, वादी, प्रसिद्ध, कीर्तिमान, विजयी, उस्वभाव, धनी, विद्वान्, प्रचुर सन्तान, उदार, नम्रभाषी परन्तु अपने आपको दूसरों से उच्च समझने वाला, सुखी विवाहित जीवन एवं उच्चपद पर आसीन होता है।

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

## शुक्र

बारहवें भाव में शुक्र होतो जातक धनवान्, परस्त्रीरत, बहुभोजी, शत्रुनाशक, मितव्ययी, आलसी, पतित, धातुविकारी, स्थूल एवं न्यायशील होता है।

मिथुन राशि में शुक्र हो तो जातक कवि, साहित्यिक, चित्रकला निपुण, साहित्यिक स्रष्टा, प्रेमी, सज्जन, लोकहितैषी धनी, उदार, सम्मानित, कुशाबुद्धि, विद्वान् एवं परस्त्रियों में रुचि रखने वाला होता है।

## शनि

पंचम भाव में शनि हो तो जातक आलसी, सन्तानयुक्त, चंचल, उदासीन, विद्वान, भ्रमणशील एवं बातरोगी होता है।

वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक संकीर्ण विचारों वाला, हिंसक, कठोरध्दय, उतावला, कमजोर स्वास्थ्य, बुरी आदतें, दुःखी, विष से खतरा, निर्धन स्त्रीहीन, क्रोधी, कठोर एवं लोभी होता है।

## राहु

नवम भाव में राहु हो तो जातक प्रवासी, वातरोगी, व्यर्थ परिश्रमी, दुष्टबुद्धि, भाग्योदय से रहित, तीर्थाटनशील एवं धर्मात्मा होता है।

मीन राशि में राहु हो तो जातक आस्तिक, कुलीन, शान्त, कलाप्रिय और दक्ष होता है।

## केतु

तृतीय भाव में केतु हो तो जातक चंचल, वायुजनित रोगों से पीड़ित, भाई बहन विहीन, धनी, व्यर्थवादी एवं भूतप्रेतभक्त होता है।

कन्या राशि में केतु हो तो जातक सदारोगी, मूर्ख, मन्दाग्निरोग एवं व्यर्थवादी होता है।

## दशा विश्लेषण

**महादशा :- चन्द्र  
( 16/01/2016 - 16/01/2026 )**

चन्द्र की महादशा की अवधि दस वर्ष है। आपकी कुण्डली में यह दशा 16/01/2016 को आरम्भ और 16/01/2026 को समाप्त होगी।

आपकी जन्मकुण्डली में चन्द्र द्वितीय भाव में अवस्थित है और द्वितीय भाव सम्पत्ति, लाभ, शक्ति और संसाधन, मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति, बॉण्ड, शेयर, दायीं आँख, कल्पनाशक्ति, जीभ, दाँत तथा पारिवारिक सदस्यों का सूचक है। वर्षों की यह अवधि आपके लिए सुख और सम्पत्ति की दृष्टि से उत्तम होगी।

**स्वास्थ्य :**

चन्द्र कर्क में अवस्थित है जो उसका अपना भाव है। इसलिए इस अवधि में आपके स्वास्थ्य से सम्बन्धित कोई अनपेक्षित प्रतिकूल घटना नहीं घटेगी और न ही कोई समस्या अथवा दुर्घटना होगी। आप स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करेंगे और अपने कार्यों को सुंदर ढंग से पूरा करने में समर्थ होंगे।

**अर्थ और सम्पत्ति :**

चन्द्र द्वितीय भाव में अवस्थित है जो धन और आर्थिक मामलों का भाव है। चन्द्र की इस स्थिति के कारण आपकी सम्पत्ति और बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। दस वर्षों की इस अवधि में आप बहुत अधिक धनोपार्जन करेंगे और अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे। इस दशा में धनोपार्जन और चल-अचल सम्पत्तियों में वृद्धि की संभावनाएं हैं जिससे आगे भी बहुमुखी वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग से धन की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील होगी।

**व्यवसाय :**

चन्द्र दशा की अवधि में आप अपनी स्थिति और कार्य से संतुष्ट होंगे।

अगर आप सेवा में हैं तो आपकी उच्च पद पर पदोन्नति होगी और यदि व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय के विस्तार व नये कार्य मिलने के संकेत हैं। नये रचनात्मक विचार आप के मस्तिष्क में उभरेंगे जिसकी आपके सहकर्मी और उच्चाधिकारी सराहना करेंगे और ऐसे कार्य जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होंगे। वास्तव में चन्द्र आपके व्यवसाय में आपकी स्थिति सुदृढ़ करेगा।

**पारिवारिक जीवन :**

चंद्र के मस्तिष्क और माता का कारक होने के कारण आपको सुख, प्रतिष्ठा और उत्तम पारिवारिक जीवन की प्राप्ति होगी। खासकर आपकी माता आपके दैनिक जीवन में अत्यधिक सहायक होंगी। पिता भी आपकी सहायता करेंगे। बच्चे आज्ञाकारी होंगे और परिवार में वातावरण सामान्यतया सौहार्द्रपूर्ण रहेगा।

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

शिक्षा/प्रशिक्षण :

आपको शिक्षा की प्रेरणा मिलेगी और पुराणों अथवा ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ेगी।



**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

**महादशा :- मंगल  
( 16/01/2026 - 16/01/2033 )**

मंगल की महादशा 16/01/2026 को आरम्भ तथा 16/01/2033 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्ष होगी। आपकी जन्मकुण्डली में मंगल प्रथम भाव में अव्यतित है। अतः यह दशा आपके लिये भाग्यशाली और उत्तम होगी। इसके पूर्व आपकी 10 वर्षों की चन्द्रदशा चल रही थी। आप को माता से लाभ और सम्पत्ति तथा वाहन की प्राप्ति होगी। इस दशा में आपको शुभ फल मिलते रहेंगे। आपको यश, प्रतिष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य तथा कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको ऊर्जा तथा जीवन शक्ति की प्राप्ति होगी। आप अपने सारे कार्यों का पूरे उत्साह से सम्पादन करेंगे। इस दशा के दौरान आप आत्मविश्वासी और हठधर्मी होंगे और अपनी प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सम्मान करना पड़ सकता है। आप सरदर, हृदय-रोग या पित्त-दोष से पीड़ित हो सकते हैं।

अर्थ और व्यवसाय :

आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप प्रशासनिक सेवा में हैं तो इस दशा में बहुत अच्छा करेंगे। आप सुखियों में रहेंगे और आपको यश और प्रसिद्धि की

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

प्राप्ति होगी। व्यवसाय तथा व्यापार में लाभ में वृद्धि होगी। आपको अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों का स्थानांतरण या परिवर्तन हो सकता है जो लाभदायक होगा। मुकदमें में विजय होगी। आप सैन्य सेवा, अभियन्त्रण, शल्य चिकित्सा या लौह-इस्पात उद्योग से सम्बद्ध व्यवसाय का चयन अपनी जीविका के लिये कर सकते हैं। आप योजना-कार्य या प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन अति सुन्दर ढंग से कर सकते हैं। आप रसायन, सामुद्री उत्पाद, कुटीर-उद्योग आदि से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। आप एक सफल दन्त चिकित्सक या शल्य चिकित्सक हो सकते हैं। आप तकनीकी अथवा कृषि से सम्बद्ध कार्यों में सफल होंगे।

**सम्पत्ति, वाहन, यात्राएं :**

आप न केवल स्वयं धन अर्जित करेंगे बल्कि आपको विरासत की भू-सम्पत्ति भी मिलेगी। अचानक अप्रत्याशित स्रोतों से सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। पैतृक सम्पत्ति, दाय, सेवा-निवृत्ति से लाभ, बोनस, ग्रेच्यूइटी आदि की प्राप्ति हो सकती है जो लाभदायक होंगी। साझेदारों या पैतृक सम्पत्ति से लाभ भी हो सकते हैं। इस दशा में आप अपने मकान का निर्माण कर सकते हैं या आपको किसी मकान की प्राप्ति हो सकती है।

**शिक्षा :**

इस अवधि में आप की शिक्षा उत्तम होगी और आप प्रगति करेंगे। आपको छात्रवृत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आप प्रतियोगिता परीक्षाओं, वाद-विवादों और अन्य प्रतिस्पर्धाओं में सफल होंगे। दृढ़ और आत्मविश्वासी होंगे तथा नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करेंगे। खेलों, विज्ञान तथा तकनीकी विषयों में आपकी रुचि होगी। आप एक गम्भीर छात्र होंगे-हमेशा सक्रिय, सावधान और प्रतियोगी। आप नेतृत्व करेंगे किन्तु किसी का अनुसरण नहीं करेंगे।

**परिवार :**

आपको परिवार से सुख मिलेगा। जीवन साथी के साथ सम्बन्धों में कभी-कभी तनाव हो सकता है। आपको हठधर्मिता का परित्याग करना चाहिए और परिवार में अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना चाहिए। आपके बच्चों के लिए समय भाग्यशाली होगा और उनके साथ आपके संबंध मुधुर होंगे। उनके भाग्य की उन्नति होगी और वे अपनी शिक्षा में अच्छा करेंगे। आपके मित्रों की संख्या विशाल होगी और आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे। आपकी माता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। उनका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित होगा। आपके पिता को धन, समृद्धि, लाभ, यश, ख्याति आदि की प्राप्ति होगी। आपको उनके साथ मधुर संबंध रखना चाहिए। आप को उनसे लाभ मिल सकता है। आपके छोटे भाई-बहन भाग्यशाली होंगे और उन्हें धन की प्राप्ति होगी तथा आपके बड़े भाई-बहनों को प्रगति करने के लिए एक कठिन परिश्रम करना होगा और वे अपने कार्यों में सफल होंगे। उनके साथ आपके सम्बन्ध अच्छे होंगे।

**अन्तर्दशा :**

मंगल की अन्तर्दशा आरम्भ से ही लाभदायक होगी। आपके घर में शुभ कार्य होंगे, आपको बच्चों से खुशी मिलेगी तथा आपकी शक्ति व पराक्रम में वृद्धि होगी। राहु की अन्तर्दशा अशुभ हो सकती है और स्वास्थ्य-समस्याओं तथा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। गुरु की अन्तर दशा में आपको बच्चों तथा बड़ों से सुख तथा तीर्थाटन के अवसर की

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी। दशम तथा एकादश भाव के स्वामी की अन्तर्दशा आपको व्यावसायिक सफलता तथा लाभ प्रदान करेगी। बुध की अन्तर्दशा के कारण आपकी शक्ति में कमी आएगी, असफल छोटी यात्राएँ होंगी और भाई-बहनों से कष्ट मिलेगा। केतु की अन्तर्दशा के कारण मानसिक समस्याओं और तनाव से सामना होगा। शुक्र की अन्तर्दशा के कारण आपको मानसिक तनाव होगा तथा पारिवारिक जीवन में संकट का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की अन्तर्दशा आपके लिये समृद्धिशाली सिद्ध होगी और इस दौरान आपकी शिक्षा उत्तम होगी और आप भाग्यशाली होंगे। चन्द्र की अन्तर्दशा के कारण आपको माता से लाभ होगा और भूमि और वाहन की प्राप्ति होगी।



**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

**अंतर्दशा :- मंगल - मंगल  
( 16/01/2026 - 14/06/2026 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 16/01/2026 को प्रारंभ हुई है। इस महादशा के अंतर्गत प्रथम अंतर्दशा मंगल की होगी जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन है। आपके लिए यह 16/01/2026 को प्रारंभ होकर 14/06/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल वीरता, साहस, अचल संपत्ति और भाइयों का कारक है।

इस अवधि में आप प्रतिद्वंद्विता में विजय के लिए बेचैन रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, मगर आपको क्रोध और उतावलेपन से बचना चाहिए। सेवा और तकनीकी कार्यों में सफल हो सकते हैं। विवाहित जीवन में तनाव हो सकता है; नीतिपूर्वक व्यवहार आवश्यक है। साझेदार से संबंध भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। अचल संपत्ति और वाहन प्राप्त कर सकते हैं। विरासत में या जीवनसाथी के माध्यम से धन मिल सकता है।

आपके जीवनसाथी धनी और सशक्त बनेंगे। आपके पिता समृद्ध होंगे; निवेश में सफलता अर्जित करेंगे। माता को उच्चपद प्राप्त हो सकता है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तीर्थयात्राएं करेंगी। आपके अपने भाई-बहनों से संबंध उत्तम रहेंगे।

आपकी संतान को सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। अगर वे सेवारत हैं तो लंबी यात्राएं हो सकती हैं, वांछित स्थान पर तबादला हो सकता है।

अगर आप सेवारत हैं तो परिवर्तन की संभावना है। परामर्शदाता नये कार्य की योजना बनाएं। व्यापारीगण नये कार्यों, विशेषकर लोहे, धातु, अग्नि संबंधी कार्यों में सफल हो सकते हैं।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मामूली चोट या बीमारी हो सकती है। अरिष्ट से बचाव के लिए मंगल के गायत्री मंत्र का जाप करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - राहु  
( 14/06/2026 - 03/07/2027 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 16/01/2026 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में दूसरी अंतर्दशा राहु की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 18 दिन होगी। आपके लिए यह 14/06/2026 को प्रारंभ होकर 03/07/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक लाभ, परिवर्तन और लंबी यात्राओं का कारक है।

इस अवधि में आपकी संकल्पशक्ति उत्तम रहेगी। भौतिक सुख उपलब्ध रहेंगे। उच्चपद पर आसीन होंगे। अध्यात्म में रुचि होगी। कोड़ लंबी यात्रा या विदेश यात्रा हो सकती है। आप स्वतंत्रचित्त और अपरंपरावादी हैं। सामाजिक रीतियों का पालन करना श्रेयस्कर होगा। संचार साधनों में सफलता मिल सकती है। छोटे भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साहस का परिचय देंगे।

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**  
लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382  
9835195382

आपके जीवनसाथी की सक्रियता बढ़ेगी। उनकी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। आपके पिता के धन में वृद्धि होगी। आपकी माता शत्रुओं पर विजयी होंगी। आपके भाई-बहन अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उनका विवाह हो सकता है। उनकी आय बढ़ेगी, आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, उत्तम मित्र बनेंगे।

आपकी संतान तकनीकी विषयों का अध्ययन कर सकती है। अगर से कार्यालय हैं तो निवेश से धनार्जन कर सकते हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे; धन का संचय होगा। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ेंगे। व्यापारियों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हाथ-पैरों में मामूली शिकायत हो सकती है। अरिष्ट से बचाव के लिए राहु मंत्र का जाप करें।

ॐ रां राहवे नमः

**अंतर्दशा :- मंगल - गुरु  
( 03/07/2027 - 08/06/2028 )**

आपकी मंगल की महादशा 16/01/2026 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा बृहस्पति की होगी जिसकी अवधि 11 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 03/07/2027 को प्रारंभ होकर 08/06/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति विवेक, संतान और आध्यात्मिकता का कारक है।

इस अवधि में आप धनी बनेंगे। प्रोन्नति और कार्यों में प्रगति की संभावना है। प्रसिद्ध लोगों से संपर्क हो सकते हैं। शुभ कार्यों के लिए यात्रा होगी, मुकदमे में विजय होगी, व्यापार में कमाई होगी। माता से संबंध मधुर होंगे। अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं। वांछित स्थान पर तबादला हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। सब सुख-सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शत्रुओं पर विजय होगी: चुनाव या स्पर्धा में विजय मिलेगी।

आपके जीवनसाथी को अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आपके पिता धन कमाएंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी। भाई-बहनों को अचानक फ़ायदा हो सकता है, परिवर्तन आएंगे, यात्रा और खर्चे का संकेत है।

आपकी संतान को स्पर्धा में सफलता मिलेगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। अगर वे सेवारत हैं तो कार्यालय उत्तम मिलेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाता प्रगति करेंगे। व्यापारी अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं।

स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अधिक परिश्रम से बचें। शुभत्व में वृद्धि के लिए पीले वस्त्र, हल्दी और चने की दाल दान में दें।

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

**अंतर्दशा :- मंगल - शनि  
( 08/06/2028 - 17/07/2029 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 16/01/2026 को आरंभ हुई थी। इस महादशा में चौथी अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 1 मास 9 दिन रहेगी। आपके लिए यह 08/06/2028 को प्रारंभ होकर 17/07/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, सेवा और पश्चिम दिशा का कारक है।

इस अवधि में आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। उच्चपद और प्रोन्नति का संकेत है। आप प्रत्येक कार्य सोच-समझकर करेंगे। निर्माणकार्य कर सकते हैं। शिशु का जन्म हो सकता है, संतान से सुख मिलेगा। सलाहकार के तौर पर कार्य कर सकते हैं। विवाह संभव है। वर्तमान व्यापार में स्थायित्व आएगा या नया व्यापार प्रारंभ करेंगे। सरकारी नौकरी वाले प्रसन्न रहेंगे। विदेश यात्रा हो सकती है। किसी अनुबंध (विशेषकर श्रमिक वर्ग से) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

आपके जीवनसाथी को समृद्धि मिलेगी। पिता को सांसारिक सुख मिलेगा। यात्रा हो सकती है। माता को धन का लाभ होगा, पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आएगा। भाई-बहनों को स्पर्धियों पर सफलता मिलेगी, वे किसी से साझा कर सकते हैं, यात्रा और विवाह संभव हैं।

आपकी संतान के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परीक्षा में सफल होंगे। उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर वे सेवारत हैं तो कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो अवांछित तबादला हो सकता है। परामर्शदाताओं के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। व्यापारी धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पाचन तंत्र का ध्यान रखें। अरिष्ट से बचाव के लिए उड़द की दाल, काले तिल और सरसों का तेल दान करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - बुध  
( 17/07/2029 - 15/07/2030 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 16/01/2026 को प्रारंभ हुई थी। इसमें पांचवी अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन है। आपके लिए यह 17/07/2029 को प्रारंभ होकर 15/07/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध वाणी, शिक्षा और सम्मान का कारक है।

इस अवधि में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। एकांत में किये काम लाभप्रद रहेंगे। ध्यान, तंत्र आदि में रुचि हो सकती है। लंबी यात्रा या विदेशयात्रा से लाभ हो सकता है। आयात-निर्यात में सफल हो सकते हैं। शत्रुओं पर विजयी रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति के बहुत से अवसर मिलेंगे। धर्म में रुचि रहेगी। स्वास्थ्य उत्तम होगा। किराये आदि से आमदनी अच्छी हो सकती है; किरायेदार सहयोग करेंगे।

**ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र**  
लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382  
9835195382

आपके जीवनसाथी कार्यक्षेत्र में उन्नति करेंगे; स्वास्थ्य उत्तम होगा। आपके पिता अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं। माता की समृद्धि बढ़ेगी, लंबी यात्राएं होंगी, धर्म में ध्यान लगाएंगी। आपके भाई-बहनों को नौकरी में तरक्की मिलेगी, सम्मान बढ़ेगा, कार्यों में उन्नति होगी।

आपकी संतान के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है; शिक्षा पूर्ण हो सकती है या नये पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। अगर वे सेवारत हैं तो तबादला हो सकता है या नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, अचानक लाभ संभव है।

अगर आप सेवारत हैं तो सामूहिक कार्य से लाभ होगा। परामर्शदाताओं को जनता से लाभ होगा। व्यापारियों के कार्यक्षेत्र में सुविधाएं बढ़ेंगी।

आंख, पैर और स्नायुतंत्र के रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए बुध के गायत्री मंत्र का जाप करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - केतु  
( 15/07/2030 - 11/12/2030 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 16/01/2026 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा केतु की है जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी। आपके लिए यह 15/07/2030 को प्रारंभ होकर 11/12/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु नाना और मोक्ष का कारक है।

इस अवधि में आप शत्रुओं पर विजयी होंगे। धन और समस्त सुख-सुविधाओं से युक्त रहेंगे। भाइयों से संबंध बिगड़ सकते हैं। आप अध्यात्म में रुचि लेंगे, संसार से मोह कम हो सकता है। लघु यात्राओं से लाभ हो सकता है; लेखन से धन कमा सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। भाग्य साथ देगा।

आपके जीवनसाथी भाग्यशाली रहेंगे और धनी बनेंगे। आपके पिता को साझेदारी से लाभ होगा। माता अध्यात्म में रुचि लेंगी। आपके भाई-बहन उच्चपद प्राप्त करेंगे; धन, प्रसिद्धि, निवेश से लाभ, शिक्षा में सफलता, संतान से सुख के संकेत हैं।

आपकी संतान को प्रसिद्धि मिलेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो हर प्रकार से लाभ होगा ; भाग्य और सफलता के संकेत हैं।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे, लोकप्रियता बढ़ेगी। परामर्शदाताओं की व्यस्तता बढ़ेगी, शत्रुओं पर विजय होगी। व्यापारी धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बाहों में दर्द की शिकायत हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए शनिवार और बृहस्पतिवार को उपवास करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शुक्र  
( 11/12/2030 - 10/02/2032 )**

आपके लिए मंगल की महादशा 16/01/2026 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अन्तर्दशा शुक्र की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 2 मास होगी। आपके लिए यह 11/12/2030 को प्रारंभ होकर 10/02/2032 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, कला और नफासत का कारक है।

इस अवधि में आप धनी बनेंगे। मितव्ययता द्वारा धन संचित करेंगे। शत्रुओं पर विजय होगी। सुख-सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आप दयालु हैं। दान-धर्म में रुचि लेंगे। एकांत में किया कार्य लाभकारी होगा। अध्यात्म में रुचि होगी। मुकदमे में सफल होंगे। नौकरी में कार्यालय उत्तम मिलेगा।

कार्यक्षमता बढ़ने से सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके जीवनसाथी को कार्यालय उत्तम मिलेगा। आपके पिता को अचल संपत्ति और वाहन प्राप्त होंगे। माता को सुख, प्रसन्नता, यात्रा, ज्ञान में वृद्धि का योग है। आपके भाई-बहनों के सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में सफल होंगे, व्यापार और विभिन्न माध्यमों से लाभ होगा।

आपकी संतान के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, सम्मानित होंगे। अगर वे सेवारत हैं तो समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और घरेलू सुख का संकेत है।

अगर आप सेवारत हैं तो साझेदारी या अनुबंध से लाभ होगा। परामर्शदाता प्रगति करेंगे। व्यापारी कठिन स्पर्धा के बावजूद लाभ उठाएंगे।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पैर और नेत्रों की व्याधियों से बचें।

अरिष्ट से बचाव के लिए लक्ष्मी की आराधना करें।